


कृषि विभाग में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (रसायन शाखा) के कार्मिकों का सुगम एवं दुर्गम में तैनाती अवधि का विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपद	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक)	वर्तमान कार्यालय में तैनाती की कुल अवधि (31.5.2018 तक)	वर्तमान कार्यालय का चिन्हीकरण (सुगम / दुर्गम)	कुल दुर्गम अवधि का आगणन	कुल सुगम अवधि का आगणन	कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री. सुभाषा जोशी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	28.07.12 से वर्तमान तक	05 वर्ष 10 माह 02 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	05 वर्ष 10 माह 02 दिन	28.02.2047	
2	श्री. विद्युता भट्ट	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय परिसर देहरादून	देहरादून	03.06.17 से वर्तमान तक	11 माह 27 दिन	सुगम	01 वर्ष 10 माह 1 दिन	03 वर्ष 11 माह 29 दिन	31.06.2047	
3	श्री. दिव्या जोशी	निदेशालय परिसर देहरादून	देहरादून	03.06.17 से वर्तमान तक	11 माह 27 दिन	सुगम	01 वर्ष 10 माह 1 दिन	03 वर्ष 11 माह 29 दिन	31.03.2046	
4	श्री. वीरेंद्र कुमार कुरील		देहरादून	17.04.17 से वर्तमान तक	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	सुगम	04 वर्ष 08 माह 22 दिन	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	31.12.2035	
5	श्री. शृजपालसिंह		देहरादून	17.04.17 से वर्तमान तक	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	सुगम	04 वर्ष 08 माह 22 दिन	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	31.02.2030	
6	श्री. आनन्द सिंह रायत	गूदा परीक्षण प्रयोगशाला, देहरादून (मु०कू०अ० देहरादून)	देहरादून	8.7.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 10 माह 23 दिन	सुगम	2 वर्ष 9 माह 00 दिन	2 वर्ष 9 माह 24 दिन	30.07.2047	
7	श्री. राजेंद्र सिंह	गूदा परीक्षण प्रयोगशाला, देहरादून (मु०कू०अ० देहरादून)	देहरादून	1.10.03 से वर्तमान तक	14 वर्ष 07 माह 29 दिन	सुगम	12 वर्ष 02 माह 06 दिन	14 वर्ष 07 माह 29 दिन	31.01.2019	
8	श्री. हर्षवर्धन भट्ट	आई०पी०एम० लैब इकरानी, (मु०कू०अ० देहरादून)	देहरादून	8.12.17 से वर्तमान तक	05 माह 21 दिन	सुगम	16 वर्ष 05 माह 05 दिन	20 वर्ष 07 माह 03 दिन	30.06.2020	
9	श्रीमती. अग्रवारी सती	मु०कू०अ० हरिद्वार	हरिद्वार	1.1.14 से वर्तमान तक	04 वर्ष 04 माह 28 दिन	सुगम	01 वर्ष 04 माह 28 दिन	04 वर्ष 04 माह 28 दिन	28.02.2045	
10	श्री. किरणपाल सिंह	मु०कू०अ० उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	14.09.11 से वर्तमान तक	06 वर्ष 08 माह 18 दिन	दुर्गम	10 वर्ष 02 माह 09 दिन	21 वर्ष 08 माह 24 दिन	30.04.2025	
11	श्री. गगनराम	मु०कू०अ० लमोली	लमोली	01.8.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 09 माह 29 दिन	दुर्गम	02 वर्ष 09 माह 29 दिन	03 वर्ष 00 माह 05 दिन	31.01.2033	
12	श्री. सुजनचन्द्र तिवारी	मु०कू०अ० पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	17.7.12 से वर्तमान तक	05 वर्ष 10 माह 13 दिन	दुर्गम	05 वर्ष 10 माह 13 दिन	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	31.07.2047	
13	श्री. शूपालसिंह बोर	गूदा परीक्षण प्रयोगशाला अल्मोड़ा (मु०कू०अ० अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा	11.8.17 से वर्तमान तक	00 वर्ष 09 माह 19 दिन	दुर्गम	36 वर्ष 10 माह 17 दिन	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	31.01.2018	
14	श्री. नरेन्द्र सिंह	मु०कू०अ० बागेश्वर	बागेश्वर	16.3.18 से वर्तमान तक	02 माह 16 दिन	दुर्गम	4 वर्ष 06 माह 22 दिन	01 वर्ष 02 माह 29 दिन	31.12.2035	
15	श्री. तारादत्त जोशी	भूमि परीक्षण प्रयोगशाला लोहाघाट स्थित कोलीढेक (मु०कू०अ० चम्पावत)	चम्पावत	1.4.15 से वर्तमान तक	03 वर्ष 01 माह 29 दिन	दुर्गम	34 वर्ष 05 माह 07 दिन	04 वर्ष 10 माह	31.05.2018	
16	श्री. धनसिंह कुटोला	मु०कू०अ० नैनीताल	नैनीताल	01.05.13 वर्तमान तक	05 वर्ष 00 माह 29 दिन	सुगम	7 वर्ष 1 माह 5 दिन	30 वर्ष 7 माह 6 दिन	30.11.2019	
17	श्री. अनुप कुमार विश्वकर्मा	एकीकृत जीवनाशी प्रबन्धन प्रयोगशाला (आई०पी०एम०) भीमताल (नैनीताल)	नैनीताल	05.08.14 से वर्तमान तक	03 वर्ष 09 माह 25 दिन	सुगम	01 वर्ष 09 माह 03 दिन	03 वर्ष 09 माह 25 दिन	31.6.2041	
18	श्री. विजयपाल सिंह	सहायक निदेशक क्षेत्रीय गूदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	13.10.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 07 माह 17 दिन	सुगम	07 वर्ष 03 माह 09 दिन	19 वर्ष 08 माह 26 दिन	31.12.2018	
19	श्री. हरीश चन्द्र अती	गूदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	02.07.11 से वर्तमान तक	06 वर्ष 10 माह 29 दिन	सुगम	10 वर्ष 02 माह 13 दिन	28 वर्ष 08 माह 03 दिन	30.09.2019	


कृषि विभाग में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (रसायन शाखा) के कार्मिको का सुगम एवं दुर्गम में तैनाती अवधि का विवरण

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपद	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक)	वर्तमान कार्यालय में तैनाती की कुल अवधि (31.5.2018 तक)	वर्तमान कार्यालय का चिन्हीकरण (सुगम / दुर्गम)	कुल दुर्गम अवधि का आगमन	कुल सुगम अवधि का आगमन	कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	श्री मोहम्मद ताहिर	सहायक निदेशक क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	15.07.17 से वर्तमान तक	00 वर्ष 10 माह 17 दिन	सुगम	04 वर्ष 11 माह 18 दिन	00 वर्ष 10 माह 17 दिन	31.06.2033	
21	श्री महेशचन्द्र भट्ट	उपरेक एवं कीटनाशी गुण निबंधन प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	10.10.14 से वर्तमान तक	03 वर्ष 07 माह 20 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	05 वर्ष 07 माह 04 दिन	30.06.2040	
22	श्रीमती रमा द्विवेदी	उपरेक एवं कीटनाशी गुण निबंधन प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	27.08.14 से वर्तमान तक	03 वर्ष 09 माह 03 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	05 वर्ष 10 माह 07 दिन	30.01.2041	
23	श्री लालसिंह शाही		ऊधमसिंहनगर	05.07.11 से वर्तमान तक	08 वर्ष 10 माह 26 दिन	सुगम	29 वर्ष 11 माह 18 दिन	06 वर्ष 10 माह 26 दिन	30.09.2018	
24	श्री भूपालसिंह बोहरा		ऊधमसिंहनगर	27.09.2017 से वर्तमान तक	00 वर्ष 08 माह 02 दिन	सुगम	29 वर्ष 09 माह 07 दिन	06 वर्ष 10 माह 23 दिन	30.06.2019	
25	श्री एसके०नैथर		ऊधमसिंहनगर	01.12.12 से वर्तमान तक	05 वर्ष 05 माह 28 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	36 वर्ष 01 माह 28 दिन	31.12.2018	
26	श्री सत्यपाल सिंह	सहायक निदेशक,सम्भागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी	नैनीताल	5.7.11 से वर्तमान तक	06 वर्ष 10 माह 26 दिन	सुगम	10 वर्ष 04 माह 07 दिन	27 वर्ष 04 माह 07 दिन		
27	श्री दिनेश चन्द्र पाठक	सहायक निदेशक,सम्भागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी	नैनीताल	9.3.18 से वर्तमान तक	02 माह 22 दिन	सुगम	07 वर्ष 09 माह 08 दिन	28 वर्ष 08 माह 12 दिन	31.06.2022	
28	श्री धनवीर सिंह रायत	बीज परीक्षण प्रयोगशाला हल्द्वानी	नैनीताल	28.07.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 10 माह 06 दिन	सुगम	19 वर्ष 02 माह 25 दिन	19 वर्ष 03 माह 15 दिन	31.01.2019	
29	बलवीर सिंह कुंवर	केन्द्राध्यक्ष राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी	पौड़ी	29.7.17 से वर्तमान तक	10 माह 01 दिन	दुर्गम	32 वर्ष 02 माह 29 दिन	04 वर्ष 07 माह 22 दिन	31.01.2020	
30	श्री सुक्रमपाल	सहायक निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल	पौड़ी	4.8.12 से वर्तमान तक	05 वर्ष 09 माह 25 दिन	दुर्गम	06 वर्ष 09 माह 25 दिन	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	31.12.2035	
31	श्री फूल सिंह	सहायक निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल	पौड़ी	10.8.17 से वर्तमान तक	09 माह 20 दिन	दुर्गम	16 वर्ष 10 माह 14 दिन	15 वर्ष 01 माह 00 दिन	29.02.2020	


वरिष्ठ प्रशा०अधि०
(वर्ग-1, पटल)


मुख्य प्रशा०अधि०
(स्था०अनु०)


उप कृषि निदेशक
(विषयन)
कृषि निदेशालय


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय


अपर कृषि निदेशक
(कृषि निदेशालय)


कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (रसायन शाखा) सुगम में कार्यरत कार्मिकों की सेवा अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में पात्रता सूची

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपद	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक)	वर्तमान कार्यालय में तैनाती की कुल अवधि (31.5.2018 तक)	वर्तमान कार्यालय का चिन्हीकरण (सुगम / दुर्गम)	कुल दुर्गम अवधि का आगणन	कुल सुगम अवधि का आगणन	कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि	55 वर्ष से अधिक आयु का विवरण	पात्रता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री एसके०नेथर	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	01.12.12 से वर्तमान तक	05 वर्ष 06 माह 28 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	36 वर्ष 01 माह 25 दिन	31.12.2018	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
2	श्री धनसिंह कुटोला	मु०कू०ओ नैनीताल	नैनीताल	01.05.13 वर्तमान तक	05 वर्ष 00 माह 29 दिन	सुगम	7 वर्ष 1 माह 5 दिन	30 वर्ष 7 माह 6 दिन	30.11.2019	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
3	श्री दिनेश चन्द्र पाठक	सहायक निदेशक,सम्भागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी	नैनीताल	9.3.18 से वर्तमान तक	02 माह 22 दिन	सुगम	07 वर्ष 09 माह 08 दिन	28 वर्ष 06 माह 12 दिन	31.06.2022	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
4	श्री सत्यपाल सिंह	सहायक निदेशक,सम्भागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र हल्द्वानी	नैनीताल	5.7.11 से वर्तमान तक	08 वर्ष 10 माह 26 दिन	सुगम	10 वर्ष 04 माह 07 दिन	27 वर्ष 04 माह 07 दिन	30.06.2020	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
5	श्री हरीश चन्द्र सती	सहायक निदेशक क्षेत्रीय मूदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	02.07.11 से वर्तमान तक	06 वर्ष 10 माह 29 दिन	सुगम	10 वर्ष 02 माह 13 दिन	26 वर्ष 08 माह 03 दिन	30.09.2019	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
6	श्री हर्षवर्धन भट्ट	आई०पी०एम० लैब डकरानी, (मु०कू०ओ देहरादून)	देहरादून	8.12.17 से वर्तमान तक	05 माह 21 दिन	सुगम	18 वर्ष 05 माह 05 दिन	20 वर्ष 07 माह 08 दिन	30.06.2020	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
7	श्री विजयपाल सिंह	सहायक निदेशक क्षेत्रीय मूदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	13.10.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 07 माह 17 दिन	सुगम	07 वर्ष 03 माह 08 दिन	19 वर्ष 08 माह 26 दिन	31.12.2018	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
8	श्री धनवीर सिंह रायत	बीज परीक्षण प्रयोगशाला हल्द्वानी	नैनीताल	23.07.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 10 माह 08 दिन	सुगम	19 वर्ष 02 माह 25 दिन	19 वर्ष 03 माह 15 दिन	31.01.2019	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
9	श्री राजेन्द्र सिंह	मूदा परीक्षण प्रयोगशाला, देहरादून (मु०कू०ओ देहरादून)	देहरादून	1.10.03 से वर्तमान तक	14 वर्ष 07 माह 29 दिन	सुगम	12 वर्ष 02 माह 06 दिन	14 वर्ष 07 माह 29 दिन	31.01.2019	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
10	श्री लालसिंह शाही	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	05.07.11 से वर्तमान तक	06 वर्ष 10 माह 28 दिन	सुगम	29 वर्ष 11 माह 16 दिन	06 वर्ष 10 माह 26 दिन	30.09.2018	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
11	श्री मूपालसिंह बोहरा	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	27.09.2017 से वर्तमान तक	00 वर्ष 08 माह 02 दिन	सुगम	29 वर्ष 09 माह 07 दिन	06 वर्ष 10 माह 23 दिन	30.06.2018	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
12	श्रीमती रमा द्विवेदी	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रुद्रपुर	ऊधमसिंहनगर	27.08.14 से वर्तमान तक	08 वर्ष 09 माह 03 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	05 वर्ष 10 माह 07 दिन	30.01.2041		अपात्र

(Handwritten signatures and initials)

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (रसायन शाखा) सुगम में कार्यरत कार्मिकों की सेवा अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में पात्रता सूची

क्र. सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपद	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक)	वर्तमान कार्यालय में तैनाती की कुल अवधि (31.5.2018 तक)	वर्तमान कार्यालय का चिन्हीकरण (सुगम / दुर्गम)	कुल दुर्गम अवधि का आगणन	कुल सुगम अवधि का आगणन	कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि	55 वर्ष से अधिक आयु का विवरण	पात्रता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	छाया जोशी	कृषि निदेशालय देहरादून	देहरादून	28.07.12 से वर्तमान तक	05 वर्ष 10 माह 02 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	05 वर्ष 10 माह 02 दिन	28.02.2047		दुर्गम हेतु पात्र
14	श्री गडेशचन्द्र भट्ट	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण	कश्मसिंहनगर	10.10.14 से वर्तमान तक	03 वर्ष 07 माह 20 दिन	सुगम	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	05 वर्ष 07 माह 04 दिन	30.06.2040		अपात्र
15	श्रीमती अवतारी सती	मु०कू०अ० हरिद्वार	हरिद्वार	1.1.14 से वर्तमान तक	04 वर्ष 04 माह 28 दिन	सुगम	01 वर्ष 04 माह 28 दिन	04 वर्ष 04 माह 28 दिन	28.02.2045		दुर्गम हेतु पात्र
16	श्रीमती चवीता भट्ट	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण	देहरादून	03.08.17 से वर्तमान तक	11 माह 27 दिन	सुगम	01 वर्ष 10 माह 1 दिन	03 वर्ष 11 माह 29 दिन	31.06.2047		अपात्र
17	श्रीमती दिव्या जोशी	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय परिसर देहरादून	देहरादून	03.06.17 से वर्तमान तक	11 माह 27 दिन	सुगम	01 वर्ष 10 माह 1 दिन	03 वर्ष 11 माह 29 दिन	31.03.2046		अपात्र
18	श्री अनुप कुमार विश्वकर्मा	एकीकृत जीवनाशी प्रबन्धन प्रयोगशाला (आई०पी०एम०) भीमताल (नैनीताल)	नैनीताल	05.06.14 से वर्तमान तक	03 वर्ष 09 माह 25 दिन	सुगम	01 वर्ष 09 माह 03 दिन	03 वर्ष 09 माह 25 दिन	31.6.2041		अपात्र
19	श्री आनन्द सिंह शवत	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, देहरादून (मु०कू०अ० देहरादून)	देहरादून	8.7.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 10 माह 23 दिन	सुगम	2 वर्ष 9 माह 00 दिन	2 वर्ष 9 माह 24 दिन	30.07.2047		अपात्र
20	श्री यश्वन्त कुमार कुरील	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय परिसर देहरादून	देहरादून	17.04.17 से वर्तमान तक	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	सुगम	04 वर्ष 08 माह 22 दिन	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	31.12.2035		अपात्र
21	श्री बृजपालसिंह	उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय परिसर देहरादून	देहरादून	17.04.17 से वर्तमान तक	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	सुगम	04 वर्ष 08 माह 22 दिन	01 वर्ष 01 माह 13 दिन	31.02.2030		अपात्र
22	श्री मोहम्मद ताहिर	सहायक निदेशक क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रादपुर	कश्मसिंहनगर	13.07.17 से वर्तमान तक	00 वर्ष 10 माह 17 दिन	सुगम	04 वर्ष 11 माह 18 दिन	00 वर्ष 10 माह 17 दिन	31.06.2033		अपात्र

वरिष्ठ प्रशासक (वर्ग-1, पटल)

मुख्य प्रशासक अधिकारी (स्था/अनु)

उप कृषि निदेशक (विपणन) कृषि निदेशालय

उप कृषि निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण) कृषि निदेशालय

अपर कृषि निदेशक (कृषि निदेशालय)

कृषि निदेशक उत्तराखण्ड

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (रसायन शाखा) दुर्गम में कार्यरत कार्मिकों की सेवा अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में पात्रता सूची

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपद	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कब से कब तक)	वर्तमान कार्यालय में तैनाती की कुल अवधि (31.5.2018 तक)	वर्तमान कार्यालय का चिन्हीकरण (सुगम / दुर्गम)	कुल दुर्गम अवधि का आगमन	कुल सुगम अवधि का आगमन	कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि	55 वर्ष से अधिक आयु का विवरण	पात्रता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री भूपालसिंह बोस	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अल्मोड़ा (मु०कृ०अ० अल्मोड़ा)	अल्मोड़ा	11.8.17 से वर्तमान तक	00 वर्ष 09 माह 19 दिन	दुर्गम	36 वर्ष 10 माह 17 दिन	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	31.01.2019	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
2	श्री तारादत्त जोशी	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला लोहाघाट स्थित कोसीदेव (मु०कृ०अ० थापायरा)	चम्पावत	1.4.15 से वर्तमान तक	03 वर्ष 01 माह 29 दिन	दुर्गम	34 वर्ष 05 माह 07 दिन	04 वर्ष 10 माह	31.05.2018	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
3	बलवीर सिंह कुँवर	केन्द्राध्यक्ष राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी	पौड़ी	29.7.17 से वर्तमान तक	10 माह 01 दिन	दुर्गम	32 वर्ष 02 माह 29 दिन	04 वर्ष 07 माह 22 दिन	31.01.2020	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
4	श्री भूल सिंह	सहायक निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल	पौड़ी	10.8.17 से वर्तमान तक	09 माह 20 दिन	दुर्गम	16 वर्ष 10 माह 14 दिन	15 वर्ष 01 माह 00 दिन	29.02.2020	55 वर्ष से अधिक आयु	अपात्र
5	श्री किरणपाल सिंह	मु०कृ०अ० उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	14.09.11 से वर्तमान तक	08 वर्ष 08 माह 16 दिन	दुर्गम	10 वर्ष 02 माह 09 दिन	21 वर्ष 08 माह 24 दिन	30.04.2025		सुगम हेतु पात्र
6	श्री भुवनेश्वर तिवारी	मु०कृ०अ० पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	17.7.12 से वर्तमान तक	06 वर्ष 10 माह 13 दिन	दुर्गम	05 वर्ष 10 माह 13 दिन	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	31.07.2047		सुगम हेतु पात्र
7	श्री सुकम्पाल	सहायक निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल	पौड़ी	4.8.12 से वर्तमान तक	05 वर्ष 09 माह 25 दिन	दुर्गम	05 वर्ष 09 माह 25 दिन	00 वर्ष 00 माह 00 दिन	31.12.2035		सुगम हेतु पात्र
8	श्री नरेन्द्र सिंह	मु०कृ०अ० बागेश्वर	बागेश्वर	15.3.18 से वर्तमान तक	02 माह 16 दिन	दुर्गम	4 वर्ष 06 माह 22 दिन	01 वर्ष 02 माह 29 दिन	31.12.2035		अपात्र
9	श्री भांगेशम	मु०कृ०अ० चमोली	चमोली	01.8.15 से वर्तमान तक	02 वर्ष 09 माह 29 दिन	दुर्गम	02 वर्ष 09 माह 29 दिन	03 वर्ष 00 माह 05 दिन	31.01.2033		अपात्र


वरिष्ठ प्रशा०अधि०
(वर्ग-1, पटल)


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(स्था०अनु०)


उप कृषि निदेशक
(विपणन)
कृषि निदेशालय



उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय


अपर कृषि निदेशक
(कृषि निदेशालय)


कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड


सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची
(धारा-09) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (रसायन शाखा)


क्र० सं०	कार्मिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपद	कुल सुगम अवधि का आँकण	दुर्गम में रिक्तियों का विवरण				पात्रता
					वर्तमान रिक्तियाँ		सम्पादित रिक्तियाँ		
					कुल संख्या	स्थल	कुल संख्या	स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती अश्विनी जोशी	कृषि निदेशालय देहशदून	देहशदून	05 वर्ष 10 माह 02 दिन	3	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नई टिहरी (मु०कृ०अ० टिहरी)-01, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रप्रयाग (मु०कृ०अ० रुद्रप्रयाग)-01, राजकीय मुनि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी-01	3	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उत्तरकाशी (मु०कृ०अ० उत्तरकाशी)-01, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पिथौरागढ़ (मु०कृ०अ० पिथौरागढ़)-01, सहोद निदेशक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर-01,	दुर्गम हेतु पात्र
2	श्रीमती अश्विनी सती	मु०कृ०अ० हरिद्वार	हरिद्वार	04 वर्ष 04 माह 28 दिन		दुर्गम हेतु पात्र			



वरिष्ठ प्रशा०अधि०
(वर्ग-1, पटल)


मु०प्रशा०अधि०
(स्था०अनु०)


उप कृषि निदेशक
(विपणन)
कृषि निदेशालय



उप कृषि निदेशक
(मा० सं० एवं प्रशि०)
कृषि निदेशालय


अपर कृषि निदेशक
(कृषि निदेशालय)


कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

**दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र अनियमित स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची
(धारा-10) सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (रसायन शाखा)**

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपद	कुल दुर्गम अवधि का आँकण	सुगम में रिक्तियों का विवरण				पात्रता
					वर्तमान रिक्तियाँ		सम्भावित रिक्तियाँ		
					कुल संख्या	स्थल	कुल संख्या	स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री किरणपाल सिंह	मु०कृ०अ० उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	10 वर्ष 02 माह 09 दिन	6	कृषि निदेशालय-1, उर्वरक एवं कीट गु०नि० प्रयो० निदेशालय परिसर, देहरादून-01, आई०पी०एम० प्रयो० भीमताल-01, सम्भागीय कृषि प्रशि० एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी-01, बीज परी० प्रयो० हल्द्वानी-1	2	कृषि निदेशालय, देहरादून-01, मु०कृ०अ० हरिद्वार-01	सुगम हेतु पात्र
2	श्री भुवनचन्द्र तिवारी	मु०कृ०अ० पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	06 वर्ष 10 माह 13 दिन					सुगम हेतु पात्र
3	श्री सुक्रमपाल	सहायक निदेशक भूदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल	पौड़ी	06 वर्ष 09 माह 25 दिन					सुगम हेतु पात्र



वरिष्ठ प्रशा०अधि०
(वर्ग-1, पटल)


मु०प्रशा०अधि०
(स्था०अनु०)


उप कृषि निदेशक
(विपणन)
कृषि निदेशालय


उप कृषि निदेशक
(मा० सं० एवं प्रशि०)
कृषि निदेशालय


अपर कृषि निदेशक
(कृषि निदेशालय)


कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।